

सितंबर, 2020

प्रिय माता-पिता,

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट (DCSD) वर्ष में तीन बार – पतझड़, शीत और वसंत में सार्वभौमिक स्क्रीनर के रूप में नॉर्थवेस्ट इवेल्यूएशन असोसियेशन (NWEA) का उपयोग करता है।

डिस्ट्रिक्ट और हमारे नए वर्चुअल वातावरण के भीतर काफी सारे स्कूलों को शामिल करने के प्रयास के तहत, DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के मूल्यांकन प्रशासन विभाग ने पतझड़ MAP परीक्षा अवधि निर्धारित की है जो सोमवार, 21 सितंबर, 2020 से शुरू होते हुए बुधवार, 11 नवंबर, 2020 को बंद हो जाएगी। हालांकि, आपके विद्यार्थी के स्कूल द्वारा उसकी विशिष्ट पतझड़ MAP परीक्षा की अवधि की जानकारी दी जाएगी।

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा वर्चुअल तौर पर स्कूल वर्ष शुरू करने के साथ ही, पतझड़ MAP विकास मूल्यांकन का आयोजन दूरस्थ रूप से किया जाएगा। पतझड़ MAP परीक्षा अवधि के दौरान शिक्षा के वातावरण में बदलाव आने पर, विद्यार्थियों की पतझड़ MAP परीक्षा का आयोजन दूरस्थ रूप से या आमने-सामने की परीक्षा के जरिए किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि शिक्षा या परीक्षा का वातावरण चाहे जो हो, सभी विद्यार्थियों को पतझड़ MAP परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

NWEA® के MAP विकास परीक्षण अद्वितीय होते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर या टैबलेट पर दिए जाने वाले अनुकूली परीक्षण होते हैं। इसका अर्थ है कि आपके बच्चे द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर परीक्षा के प्रश्न अधिक कठिन हो जाएंगे और आपके बच्चे द्वारा प्रश्न का गलत उत्तर देने पर परीक्षा के प्रश्न आसान हो जाएंगे। परीक्षा में प्रस्तुत जानकारी Georgia शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम के अनुकूल है और यह वही जानकारी होती है जिसके बारे में स्कूल में आपके बच्चे को पहले से बताया गया होता है।

यदि आपके बच्चे की IEP, 504-IAP, या EL-TPC योजना के आधार पर, आपके बच्चे को पतझड़ MAP मूल्यांकन के दौरान सुविधाओं की प्राप्ति की अनुमति हो तो उसे उनकी योजनाओं में बताई जानकारी अनुसार सुविधा प्रदान किया जाएगा।

प्रत्येक दूरस्थ MAP विकास परीक्षा सत्र में नौ विद्यार्थी भाग लेंगे (आठ विद्यार्थी और आपका बच्चा)। आमने-सामने की प्रत्येक परीक्षा में बारह विद्यार्थी शामिल होने (ग्यारह विद्यार्थी और आपका बच्चा)।

वर्चुअल MAP विकास मूल्यांकन के लिए आपके बच्चे को किस प्रकार से तैयार किया जाए इससे संबंधित निर्देश नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा, इस पत्र के साथ संलग्न है विद्यार्थी लॉग इन त्वरित मार्गदर्शिका जो कि आपको MAP मूल्यांकन का उपयोग करने के तरीके का दृश्यात्मक विवरण प्रदान करेगी।

परीक्षा दिवस से पहले

1. आपके बच्चे की डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन अवश्य होना चाहिए।
2. [वर्कस्टेशन डायग्नॉस्टिक टूल](#) के उपयोग से अपनी डिवाइस की परीक्षा संबंधी आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करें।
3. आपके बच्चे के पास हेडफोन अवश्य होना चाहिए (ग्रेड K – 2 और पाठ से बोली सुविधाओं वाले विद्यार्थी)। यदि हेडफोन की आवश्यकता हो तो कृपया अपने स्कूल से संपर्क करें।
4. MAP विकास [परिचय वीडियो](#) देखें
5. परीक्षा अभ्यास करें पर practice.mapnwea.org ।

(उपयोगकर्ता नाम: Grow पासवर्ड: grow)

परीक्षा दिवस पर

1. जितना संभव हो आपके बच्चे हो होने वाले व्यवधानों में कमी लाएं।
2. परीक्षा के लिए शांत वातावरण प्रदान करें।
3. शिक्षक/प्रॉक्टर से प्राप्त सभी निर्देशों का पालन करें।

MAP, विकास के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं: NWEA.org/Parent-Toolkit. यदि आपको कोई भी अतिरिक्त प्रश्न पूछना है, तो कृपया _____ (insert Test Coordinator's Name) से 678-XXX-XXXX पर संपर्क करें।

भवदीय,

प्रधानाचार्य